

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 213
No. 310] DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939 [N.C.T.D. No. 213

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

फा. सं. आर. 103/सी. ओ. टी./डब्ल्यू. ऍफ़. डी./2016-17/3539-48.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर, द्वारका सेक्टर-25, नई दिल्ली के विकास/निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 89.72 हैक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर, द्वारका सेक्टर-25, नई दिल्ली।	89.72 (लगभग)	1961	19610 (पश्चिमी वन विभाग द्वारा)
	कुल योग	1961	19610

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

- (क) आवेदक का सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 11,17,77,000/—रुपये (ग्यारह करोड़ सत्रह लाख सतत्तर हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	वन विभाग द्वारा 100% (19610) पेड़ों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण आई. टी. ओ. बेराज और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के बीच यमुना फ्लड प्लेन्स की भूमि पर किया जायेगा।	19610	रु.- 11,17,77,000/-	उप-वन संरक्षक (पश्चिमी)/वन अधिकारी

- (ख) 19610 पेड़ों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा तथा उनका सात वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद निम्न प्रकार निगरानी की जाएगी:-
- (i) 19610 पेड़ों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा आई. टी. ओ. बेराज और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के बीच यमुना फ्लड प्लेन्स की भूमि पर किया जायेगा।
- (ग) 1961 पेड़ों के काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी की नीलामी उपभोगी संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि सरकार को राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
- (घ) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा जलाऊ लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियों की जलाऊ लकड़ी, यदि है, को काटे जाने के पश्चात प्राप्त जलाऊ लकड़ी मुफ्त में दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंप दिया जायेगा।
- (ङ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

केशव चन्द्र, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 16th August, 2017

No. F. 103/COT /WFD /16-17/3539-48.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 89.72 ha.(approx) as detailed below for construction/development of International Exhibition cum Convention Centre at Dwarka, Sector-25, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed	Compensatory plantation required (No. of trees)
Construction/development of International Exhibition cum Convention Centre at Dwarka, Sector-25, New Delhi.	89.72 (approx)	1961	19610 (by West Forest Division)
	Total	1961	19610

The said exemption is subject to fulfilment of the following conditions:—

- (a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 11,17,77,000/- (Rupees Eleven Crore Seventeen Lakhs Seventy Seven Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows:

Project No.	Location of Compensatory Afforestation plantation	Number of saplings to be planted (Number of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1.	100 % (19610) nos. by the Forest Department at Yamuna Flood Plains between ITO Barrage and Yamuna Bank Metro Station.	19610	11,17,77,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer

- (b) The compensatory plantation will be raised and maintained for Seven years and monitored till its successful establishment by following manners:—
- (i) 19610 saplings of indigenous species will be done by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi at Yamuna Bank Flood Plains between ITO Barrage and Yamuna Bank Metro Station.
- (c) The timber obtained from felling of 1961 trees shall be auctioned by the user agency and deposit the proceeds as revenue to the government.
- (d) The firewood, if any, obtained on removal of firewood species of trees shall be handed over by the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi free of cost.
- (e) Before shifting of wood if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West).

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

KESHAV CHANDRA, Secy. (Environment & Forests)